



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 154]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 1979/चैत्र 19, 1901

No. 154]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 1979/CHAITRA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उच्चांग संचालक

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

क्रा० धा० 197 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1979 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में,—

(i) खण्ड 4 के अंत में 'आदेश' में शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“जो किसी श्रेणी को विनियमित या प्रतिबंधित करने और सीमेंट के विपक्ष और/या क्रय से सम्बद्ध वाणिज्यिक या आर्थिक लेन-देन, उनके संदाय आदि का उपबंध करने वाला है”।

(ii) खण्ड 4 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसी शक्तों के जो विनिश्चित की जाएं और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक सीमेंट उत्पादक से राज्य सरकार को प्राबलित सीमेंट की कुल मात्रा के धोहरा रहते हुए, राज्य सरकार को, प्राबलितियों के ब्योरे और प्रत्येक सीमेंट उत्पादक द्वारा उनमें से प्रत्येक को प्रदाय किए जाने वाले सीमेंट की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।”

(iii) उक्त आदेश के विद्यमान खण्ड 13 को 13 (i) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, अर्थात् :—

(iv) खण्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“13(ii) राज्य सरकार, ऊपर उपखण्ड (i) के अधीन शक्तियों के प्रत्यायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस आदेश के खण्ड 4 के परन्तुक में उपबंधित सीमा तक, शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।”

[क्रा० सं० 1-16/78 सीमेंट]

ए० महादेवन, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th April, 1979

S.O. 197(E).—In exercise of the powers conferred by sections 18G and 25 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, the Central Government hereby makes the following order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely :—

1. (i) This Order may be called the Cement Control (Amendment) Order, 1979.
- (ii) It shall come into force on the date of publication in official Gazette.
2. In the Cement Control Order 1967,
 - (i) at the end of clause 4 and after the word "Order", the following shall be added, namely "which may provide for regulating or prohibiting any class and of commercial or financial transactions relat-

ing to the sale and/or purchase of cement, payment therefore etc."

- (ii) in clause 4, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the Central Government may authorise a State Government to decide, subject to such conditions as may be specified and within the total quantities of cement allocated to the State Government by the Central Government from each of the cement producer, the details of the allottees and the quantities to be supplied to each of them by each of the cement producer".

- (iii) the existing clause 13 of the said Order may be renumbered as 13(i).

- (iv) for clause 13, the following clause shall be added, namely :—

"13(ii) Without prejudice to the delegation of powers under sub clause (i) above, the State Governments may exercise powers to the extent provided under proviso to clause 4 of this Order."

[F. No. 1-16/78-Cem.]
I. MAHADEVAN, Jt. Secy.